





HINDI  
हिन्दी

1. बाह्य प्रयत्न के अनुसार, वर्णों के मुख्य \_\_\_\_\_ भेद हैं ।

- A) तीन
- B) दो
- C) चार
- D) पाँच

2. हिन्दी में कुल \_\_\_\_\_ सर्वनाम हैं ।

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 14

3. विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग \_\_\_\_\_ प्रकार से होता है ।

- A) दो
- B) तीन
- C) चार
- D) इनमें से कोई नहीं

4. क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, ष, स \_\_\_\_\_ वर्ण कहलाते हैं ।

- A) घोष
- B) विवृत
- C) अघोष
- D) इनमें से कोई नहीं

5. मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर \_\_\_\_\_ स्वर कहलाते हैं ।

- A) संधि
- B) लघु
- C) गुरु
- D) इनमें से कोई नहीं

6. यदि मुँह से पूरा श्वास निकाला जाए, तो शुद्ध \_\_\_\_\_ ध्वनि निकलती है ।

- A) सानुनासिक
- B) निरनुनासिक
- C) असवर्ण
- D) इनमें से कोई नहीं

7. हिन्दी भाषा में व्यंजनांतक संज्ञाएँ नहीं हैं । \_\_\_\_\_ भाषा की अधिकांश व्यंजनांतक संज्ञाएँ हिन्दी में अकारांत पुल्लिंग हो जाती हैं ।

- A) संस्कृत
- B) फारसी
- C) उर्दू
- D) इनमें से कोई नहीं





8. 'का, के, की' विभक्तियाँ \_\_\_\_\_ कारक के अंतर्गत आते हैं ।
- A) अपादान  
B) संबंध  
C) अधिकरण  
D) इनमें से कोई नहीं
9. \_\_\_\_\_ वाच्य क्रिया बहुधा अशक्तता के अर्थ में आती है, जैसे - वहाँ कैसे बैठा जायेगा और लड़के से नहीं चला जाता ।
- A) कर्म  
B) कर्तृ  
C) भाव  
D) इनमें से कोई नहीं
10. विसर्ग (:) \_\_\_\_\_ वर्ण है ।
- A) तालव्य  
B) मूर्धन्य  
C) कंट्य  
D) इनमें से कोई नहीं
11. शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर (धक्का) लगता है, उसे \_\_\_\_\_ कहते हैं ।
- A) स्वराघात  
B) अंतस्थ  
C) ऊष्म  
D) इनमें से कोई नहीं
12. शब्द के अर्थ में हेर-फेर करने के लिए उस (शब्द) के रूप में जो हेर-फेर होता है, उसे \_\_\_\_\_ कहते हैं ।
- A) विधान  
B) रूपांतर  
C) व्युत्पत्ति  
D) इनमें से कोई नहीं
13. मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम \_\_\_\_\_ विशेषण के दो भेद हैं ।
- A) सार्वनामिक  
B) गुणवाचक  
C) संख्यावाचक  
D) इनमें से कोई नहीं
14. सार्वनामिक विशेषण \_\_\_\_\_ से बनते हैं ।
- A) क्रियाओं  
B) सर्वनामों  
C) संज्ञाओं  
D) इनमें से कोई नहीं
15. जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे \_\_\_\_\_ अव्यय कहते हैं ।
- A) समुच्चयबोधक  
B) संबंधसूचक  
C) विस्मयादिबोधक  
D) इनमें से कोई नहीं

ENGLISH  
अंग्रेजी

**Direction (Q. No. 16 and Q. No. 17) :**  
Choose the correct meaning of the idioms given below.

16. To play fast and loose.  
A) to deceive oneself  
B) to be agile  
C) to say one thing and do another  
D) to be efficient
17. By fits and starts.  
A) irregularly  
B) mostly  
C) after a short time  
D) regularly

**Direction (Q. No. 18 and Q. No. 19) :**  
Fill in the blanks with appropriate words from the alternatives given below them.

18. He will come back \_\_\_\_\_ two days' time.  
A) in  
B) at  
C) by  
D) with
19. Either Cheton or Achou \_\_\_\_\_ in the wrong.  
A) are  
B) were  
C) is  
D) have

20. Choose the correct option which can substitute the underlined group of words correctly, without changing the meaning of the sentence.

Technology must use to feed the forces of change.

- A) must be used to feed  
B) must have been using to feed  
C) must use having fed  
D) must be using to feed

21. Fill in the blank with appropriate tense form of the verb from the alternatives given below it.

I \_\_\_\_\_ the book when you come next. (read)

- A) read  
B) shall have read  
C) have read  
D) was reading

**Direction (Q. No. 22 and Q. No. 23) :**  
Choose the synonym for the given words from the alternatives given below them.

22. ALLEVIATE  
A) Vivacious  
B) Relieve  
C) Estimate  
D) Support



23. CONFOUND

- A) Perplex
- B) Enormous
- C) Talk to
- D) Fearful

**Direction (Q. No. 24 and Q. No. 25) :**  
Give one word substitute for the following from the alternatives given below them.

24. That which cannot be altered or recalled.

- A) Imperceptive
- B) Irreconcilable
- C) Irrevocable
- D) Invincible

25. A person who draws maps and charts.

- A) Cartographer
- B) Draper
- C) Painter
- D) Artisan

**Direction (Q. No. 26 and Q. No. 27) :**  
Choose the antonym of the given words from the alternatives given below them.

26. BIASED

- A) slanted
- B) one-sided
- C) unjust
- D) objective

27. FIGURATIVE

- A) notorious
- B) literal
- C) malign
- D) insipid

28. Fill in the blank with appropriate question tag from the alternatives given below it.

The teams have played the match, \_\_\_\_\_ ?

- A) have they
- B) haven't they
- C) do they
- D) did they

**Direction (Q. No. 29 and Q. No. 30) :**  
Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs from the alternatives given below them.

29. How much cloth does this factory \_\_\_\_\_ in a day ?

- A) turn off
- B) turn up
- C) turn out
- D) turn on

30. The boy \_\_\_\_\_ the ball.

- A) ran after
- B) ran down
- C) ran out
- D) ran up



## REASONING

31. Choose the odd man out.
- A) Liver                      B) Ear  
C) Kidney                     D) Lungs
32. Choose the odd man out.
- A) Football  
B) Volleyball  
C) Cricket  
D) Chess
33. Choose the odd man out.
- A) Pear  
B) Apple  
C) Orange  
D) Guava
34. If the digits in the number 8911743 are arranged in the ascending order from left to right, then what will be the difference of the digits which are 2<sup>nd</sup> from the right end and 5<sup>th</sup> from the left end in new arrangement ?
- A) 2                              B) 3  
C) 1                              D) 0
35. If the digits in the number 42168674 are arranged in the descending order from left to right, then what will be the product of the digits which are 3<sup>rd</sup> from left end and 4<sup>th</sup> from the right end in the new arrangement ?
- A) 24                             B) 48  
C) 36                             D) 28

## तार्किक योग्यता

31. सर्वथा भिन्न चुनिए ।
- A) यकृत                        B) कान  
C) वृक्क                        D) फेफड़े
32. सर्वथा भिन्न चुनिए ।
- A) फुटबॉल  
B) बॉलीबॉल  
C) क्रिकेट  
D) शतरंज
33. सर्वथा भिन्न चुनिए ।
- A) नाशपाती  
B) सेब  
C) संतरा  
D) अमरूद
34. यदि संख्या 8911743 के अंकों को बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो नई व्यवस्था में दाएँ छोर से दूसरे और बाएँ छोर से 5 वें अंक के बीच कितना अंतर होगा ?
- A) 2                              B) 3  
C) 1                              D) 0
35. यदि संख्या 42168674 के अंकों को बाएँ से दाएँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो नई व्यवस्था में बाएँ छोर से तीसरे और दाएँ छोर से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा ?
- A) 24                             B) 48  
C) 36                             D) 28



36. If each of the consonant in the word 'APPLICANT' is changed to the next letter in English alphabet and each vowel is changed to next consonant in the English alphabet, and then the letters in the word so formed are arranged in the alphabetical order from left to right. Which of the following will be 3<sup>rd</sup> letter from the right end of the new arrangement of letters thus formed ?

- A) D
- B) W
- C) Q
- D) O

37. Find the missing number in the following series :

27, \_\_, 125, 216, 343

- A) 30
- B) 9
- C) 100
- D) 64

38. Complete the following analogy :

Mass : Kilogram :: Temperature : \_\_\_\_\_

- A) Candela
- B) Length
- C) Gram
- D) Kelvin

39. Complete the following analogy :

Brother : Sister :: Son : \_\_\_\_\_

- A) Aunt
- B) Uncle
- C) Daughter
- D) Grand daughter

36. यदि शब्द 'APPLICANT' में आने वाले प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन से बदल दिया जाता है, और इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएँ से दाएँ वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो अक्षरों की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएँ छोर से तीसरा होगा ?

- A) D
- B) W
- C) Q
- D) O

37. निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें :

27, \_\_, 125, 216, 343

- A) 30
- B) 9
- C) 100
- D) 64

38. निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें :

द्रव्यमान : किलोग्राम :: तापमान : \_\_\_\_\_

- A) कैंडेला
- B) लंबाई
- C) ग्राम
- D) केल्विन

39. निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें :

भाई : बहन :: पुत्र : \_\_\_\_\_

- A) चाची
- B) चाचा
- C) पुत्री
- D) पोती



40. Find the odd man out.  
A) Cabbage                      B) Potato  
C) Carrot                        D) Radish
41. Find the odd man out.  
A) Lion                            B) Cheetah  
C) Tiger                         D) Elephant
42. Find the odd man out.  
A) Arithmetic  
B) Trigonometry  
C) Quantum Machines  
D) Geometry
43. Simplify the following expression :  
 $15 \times 6 \div 8 \times 4 + 2$   
A) 50                              B) 15  
C) 13                               D) 47
44. Simplify the following expression :  
 $23 \times 2 \div 2 - 6 + 14$   
A) 21                               B) 42  
C) 31                               D) 28
45. Simplify the following expression :  
 $9 - 9 \div 9 \times 9 + 19 - 29$   
A) 9                                B) 19  
C) -29                             D) -10
46. Find the wrong number in the following series :  
2, 4, 12, 96, 768, 7680  
A) 4                                B) 12  
C) 768                             D) 7680

40. सर्वथा भिन्न चुनिए ।  
A) पत्तागोभी                      B) आलू  
C) गाजर                         D) मूली
41. सर्वथा भिन्न चुनिए ।  
A) शेर                              B) चीता  
C) बाघ                             D) हाथी
42. सर्वथा भिन्न चुनिए ।  
A) अंकगणित  
B) त्रिकोणमिति  
C) क्वांटम मशिन्स  
D) ज्यामिति
43. निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें :  
 $15 \times 6 \div 8 \times 4 + 2$   
A) 50                               B) 15  
C) 13                               D) 47
44. निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें :  
 $23 \times 2 \div 2 - 6 + 14$   
A) 21                               B) 42  
C) 31                               D) 28
45. निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें :  
 $9 - 9 \div 9 \times 9 + 19 - 29$   
A) 9                                B) 19  
C) -29                             D) -10
46. निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें :  
2, 4, 12, 96, 768, 7680  
A) 4                                B) 12  
C) 768                             D) 7680





47. Find the wrong number in the following series :

1, 2, 8, 64, 625, 7776

- A) 2  
B) 7776  
C) 8  
D) 625

48. Find the wrong number in the following series :

3, 12, 16, 80, 85, 504, 516

- A) 504  
B) 12  
C) 16  
D) 85

49. Find the missing letters in the following series :

ELFA, GLHA, ILJA, \_\_\_\_\_, MLNA.

- A) OLPA  
B) KLMA  
C) LLMA  
D) KLLA

50. Find the missing letters in the following series :

CMM, EOO, GQQ, \_\_\_\_\_, KUU.

- A) GRR  
B) GSS  
C) ISS  
D) ITT

51. Find the odd man out.

- A) January  
B) March  
C) June  
D) December

47. निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें :

1, 2, 8, 64, 625, 7776

- A) 2  
B) 7776  
C) 8  
D) 625

48. निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें :

3, 12, 16, 80, 85, 504, 516

- A) 504  
B) 12  
C) 16  
D) 85

49. निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें :

ELFA, GLHA, ILJA, \_\_\_\_\_, MLNA.

- A) OLPA  
B) KLMA  
C) LLMA  
D) KLLA

50. निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें :

CMM, EOO, GQQ, \_\_\_\_\_, KUU.

- A) GRR  
B) GSS  
C) ISS  
D) ITT

51. सर्वथा भिन्न चुनिए ।

- A) जनवरी  
B) मार्च  
C) जून  
D) दिसंबर

D

52. If in a certain code language, 'x' means '+', '+' means '-', '-' means 'x', then the value of  $16 \times 32 + 14 - 4 \div 12$  is

- A) 42.5  
B) -42.5  
C) 43.5  
D) -43.5

53. If in a certain code language, 'x' means '+', '+' means '-', '-' means 'x', then the value of  $(15 \times 3) \times (45 + 35) \div (30)$  is

- A) -15  
B) 30.5  
C) 42.5  
D) 15.5

54. If in a certain code language, 'x' means '+', '+' means '-', '-' means 'x', then the value of  $35 - 16 \times (18 - 5 + 10) \div 10$

- A) 17  
B) 35  
C) 19  
D) 80

55. Roshan is taller than Hardik who is shorter than Sushil. Niza is taller than Harry but shorter than Hardik. Sushil is shorter than Roshan. Who is the tallest ?

- A) Roshan  
B) Sushil  
C) Niza  
D) Hardik

52. यदि एक निश्चित कूट भाषा में 'x' का अर्थ '+' है, '+' का अर्थ '-' है, '-' का अर्थ 'x' है, तो  $16 \times 32 + 14 - 4 \div 12$  का मान होगा

- A) 42.5  
B) -42.5  
C) 43.5  
D) -43.5

53. यदि एक निश्चित कूट भाषा में 'x' का अर्थ '+' है, '+' का अर्थ '-' है, '-' का अर्थ 'x' है, तो  $(15 \times 3) \times (45 + 35) \div (30)$  का मान होगा

- A) -15  
B) 30.5  
C) 42.5  
D) 15.5

54. यदि एक निश्चित कूट भाषा में 'x' का अर्थ '+' है, '+' का अर्थ '-' है, '-' का अर्थ 'x' है, तो  $35 - 16 \times (18 - 5 + 10) \div 10$  का मान होगा

- A) 17  
B) 35  
C) 19  
D) 80

55. रोशन, हार्दिक से लंबा है, जो सुशील से छोटा है। निज़ा, हैरी से लंबी लेकिन हार्दिक से छोटी है। सुशील, रोशन से छोटा है। सबसे लंबा कौन है ?

- A) रोशन  
B) सुशील  
C) निज़ा  
D) हार्दिक

56. In a group of 5 boys, Vasant is taller than Manohar but not as tall as Raju. Jayant is taller than Dutta but shorter than Manohar. Who is the shortest in group ?

- A) Raju                      B) Vasant  
C) Dutta                      D) Jayant

57. Find the missing letters in the following series :

SCD, TEF, UGH, \_\_\_\_, WKL.

- A) CMN                      B) UJI  
C) VIJ                        D) IJT

58. If each of the vowel in the word 'TEMPLATE' is changed to the next vowel and each consonant is changed to the previous consonant in the English alphabet, and then the letters in the word so formed are arranged in reverse alphabetical order from left to right. Which of the following will be the 6<sup>th</sup> letter from left end of the new arrangement of letters thus formed ?

- A) I                              B) N  
C) K                              D) P

59. Which of the following number will come next in the following series ?

8287387648765587654

- A) 3                              B) 6  
C) 8                              D) 7

60. Which of the following number will come next in the following series ?

789234678923455678923456

- A) 1                              B) 2  
C) 3                              D) 4

56. 5 लड़कों के एक समूह में वसंत, मनोहर से लंबा है, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत, दत्ता से लंबा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है ?

- A) राजू                        B) वसंत  
C) दत्ता                        D) जयंत

57. निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें :

SCD, TEF, UGH, \_\_\_\_, WKL.

- A) CMN                      B) UJI  
C) VIJ                        D) IJT

58. यदि शब्द 'TEMPLATE' में प्रत्येक स्वर को अंग्रेज़ी वर्णमाला में उससे अगले स्वर और प्रत्येक व्यंजन को उससे पिछले व्यंजन से बदल दिया जाता है और इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएँ से दाएँ वर्णमाला के विपरित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो अक्षरों की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर बाएँ छोर से छठा होगा ?

- A) I                              B) N  
C) K                              D) P

59. निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन-सी होगी ?

8287387648765587654

- A) 3                              B) 6  
C) 8                              D) 7

60. निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन-सी होगी ?

789234678923455678923456

- A) 1                              B) 2  
C) 3                              D) 4



## TEACHING APTITUDE

61. What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learners ?
- A) Placement                      B) Summative  
C) Continuous                      D) Diagnostic
62. Which from the following should be used to increase correct responses and appropriate behavior from students ?
- A) Ignorance                      B) Strictness  
C) Punishment                      D) Praise
63. Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blue-print for a test ?
- A) Topic  
B) Instructional objectives  
C) Form of questions  
D) Teaching time
64. The curriculum of educational institutes should be based on
- A) Theory  
B) Practice  
C) Both (A) and (B)  
D) None of the above
65. \_\_\_\_\_ are the approaches to the study of leadership which emphasise the personality of the leader.
- A) Contingency theories  
B) Group theories  
C) Trait theories  
D) Inspirational theories

## शिक्षण अभिक्षमता

61. किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है ?
- A) प्लेसमेंट                      B) योगात्मक  
C) निरंतर                      D) डायग्नोस्टिक
62. विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए ?
- A) अज्ञान                      B) कठोरता  
C) सजा                      D) तारीफ करना
63. परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है ?
- A) विषय  
B) निर्देशात्मक उद्देश्य  
C) प्रश्नों के प्रकार  
D) शिक्षण समय
64. शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम \_\_\_\_\_ पर आधारित होना चाहिए ।
- A) सिद्धांत  
B) अभ्यास  
C) (A) और (B) दोनों  
D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
65. \_\_\_\_\_ नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं ।
- A) आकस्मिक सिद्धांत  
B) समूह सिद्धांत  
C) विशिष्टता सिद्धांत  
D) प्रेरक सिद्धांत



66. You want to ensure participation of more students in class. Which of the following methods of teaching would you adopt ?

- A) Demonstration
- B) Discussion
- C) Recitation
- D) Role-play

67. \_\_\_\_\_ is the process in which you identify the common aspects or basic relationships in a variety of specific situations.

- A) Abstraction
- B) Generalization
- C) Problem solving
- D) Reasoning

68. If you want to improve the ability to observe in children, which of the following would you recommend ?

- A) Generating interest in subject
- B) Developing a framework for experiences
- C) Sharpening the senses
- D) Training mental faculties

69. \_\_\_\_\_ is the apex institution involved in the planned and coordinated development of the teacher education system in the country.

- A) UGC
- B) NCERT
- C) NCTE
- D) XSEED

66. आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे ?

- A) प्रदर्शन
- B) बहस
- C) सस्वर पाठ
- D) रोल-प्ले

67. \_\_\_\_\_ वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं।

- A) मतिहीनता
- B) सामान्यीकरण
- C) समस्या को सुलझाना
- D) युक्ति संगत

68. यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे ?

- A) विषय में रुचि पैदा करना
- B) अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना
- C) इंद्रियों को तेज करना
- D) मानसिक संकायों का प्रशिक्षण

69. \_\_\_\_\_ देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है।

- A) UGC
- B) NCERT
- C) NCTE
- D) XSEED

D





70. If you want to develop cooperation and team spirit in students, which activities would you propose?

- A) Art
- B) Debate
- C) Project work
- D) Quiz

71. You come across a teacher who believes that students are naturally curious and that the best way to encourage learning is through a process of 'self-discovery'. Such a student is highly likely to encourage \_\_\_\_\_ to learn.

- A) Competition
- B) Extrinsic motivation
- C) Imitation
- D) Intrinsic motivation

72. "Children actively construct their understanding of the world" is a statement attributed to

- A) Kohlberg
- B) Skinner
- C) Piaget
- D) Pavlov

73. A child breaks toys and dismantles them to explore their components. What would you do?

- A) Never let child play with toys
- B) Always keep a close watch
- C) Encourage his inquisitive nature and channel his energy
- D) Make him understand that toys should not be broken

70. यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे ?

- A) कला
- B) बहस
- C) परियोजना कार्य
- D) प्रश्न पूछना

71. आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका 'स्वयं की खोज' की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए \_\_\_\_\_ को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है।

- A) प्रतियोगिता
- B) बाहरी प्रेरणा
- C) नकल
- D) आंतरिक प्रेरणा

72. "बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं" एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है

- A) कोलबर्ग
- B) स्किनर
- C) पियाजे
- D) पावलोव

73. एक बच्चा खिलौनों को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। आप क्या करेंगे ?

- A) बच्चे को खिलौनों से कभी न खेलने दें
- B) हमेशा कड़ी नजर रखें
- C) उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें
- D) उसे समझाएँ कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए





74. "Individual learns from his own mistakes". This statement is based on which learning theory ?
- A) Instrumental conditioning  
B) Insight  
C) Trial and Error  
D) Classical conditioning
75. Which of the following is not the tool for Formative Assessment in scholastic domain ?
- A) Conversation Skill  
B) Multiple Choice Questions  
C) Projects  
D) Oral Questions
76. Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context ?
- A) Horizontal communication  
B) Vertical communication  
C) Corporate communication  
D) Cross communication
77. Identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom.
- A) Avoidance of proximity  
B) Voice modulation  
C) Repetitive pause  
D) Fixed posture
74. "व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है"। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है ?
- A) वाद्य अनुकूलन  
B) अंतर्दृष्टि  
C) परीक्षण और त्रुटि विधि  
D) शास्त्रीय अनुकूलन
75. निम्नलिखित में से कौन-सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है ?
- A) बातचीत कौशल  
B) बहु विकल्पीय प्रश्न  
C) परियोजनाओं  
D) मौखिक प्रश्न
76. कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहाँ लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन-सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है ?
- A) क्षैतिज संचार  
B) ऊर्ध्वाधर संचार  
C) सामूहिक संचार  
D) पार संचार
77. एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें।
- A) निकटता से बचना  
B) आवाज मॉडुलन  
C) दोहराव विराम  
D) निश्चित आसन

78. Which of the following items of information are important about students to motivate them for studies ?

- A) Learning style
- B) Personality
- C) Socio-cultural background
- D) All of the above

79. What are required for good teaching ?

- a. Diagnosis
- b. Remedy
- c. Direction
- d. Feedback

Select the correct answer from the codes given below :

- A) a, b, c and d
- B) a and b
- C) b, c and d
- D) c and d

80. Most often, the teacher - student communication is

- A) Spurious
- B) Critical
- C) Utilitarian
- D) Confrontational

81. Arrange the following teaching process in order :

- i. Connecting the present knowledge with the previous knowledge
- ii. Evaluation
- iii. Re-teaching
- iv. Formulating objectives
- v. Presentation of materials

- A) (i), (ii), (iii), (iv), (v)
- B) (ii), (i), (iii), (iv), (v)
- C) (v), (iv), (iii), (i), (ii)
- D) (iv), (i), (v), (ii), (iii)

78. विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी जानकारी महत्वपूर्ण है ?

- A) सीखने की शैली
- B) व्यक्तित्व
- C) सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
- D) ऊपर के सभी

79. अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक हैं ?

- a. निदान
- b. उपचार
- c. दिशा
- d. प्रतिक्रिया

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें :

- A) a, b, c और d
- B) a और b
- C) b, c और d
- D) c और d

80. सबसे अधिक, शिक्षक-छात्र संचार है

- A) जाली
- B) गंभीर
- C) उपयोगी
- D) टकराव

81. निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें :

- i. वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना
- ii. मूल्यांकन
- iii. फिर से पढ़ाना
- iv. उद्देश्यों का निर्माण
- v. सामग्री की प्रस्तुति

- A) (i), (ii), (iii), (iv), (v)
- B) (ii), (i), (iii), (iv), (v)
- C) (v), (iv), (iii), (i), (ii)
- D) (iv), (i), (v), (ii), (iii)



82. Dynamic approach to teaching means

- A) Teaching should be forceful and effective
- B) Teachers should be energetic and dynamic
- C) The topics of teaching should not be static but dynamic
- D) The students should be required to learn through activities

83. Which of the following does not belong to a projected aid ?

- A) Overhead projection
- B) Blackboard
- C) Motion pictures
- D) Slides

84. By which of the following methods, the true evaluation of the students is possible ?

- A) Evaluation at the end of the course
- B) Evaluation twice a year
- C) Continuous evaluation
- D) Formative evaluation

82. शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब है

- A) शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए
- B) शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए
- C) शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए
- D) छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए

83. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है ?

- A) ओवरहेड प्रोजेक्शन
- B) ब्लैकबोर्ड
- C) मोशन पिक्चर्स
- D) स्लाइड्स

84. निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है ?

- A) पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन
- B) मूल्यांकन वर्ष में दो बार
- C) निरंतर मूल्यांकन
- D) निर्माणात्मक मूल्यांकन



85. The essence of an effective classroom environment is

- A) A variety of teaching aids
- B) Lively student-teacher interaction
- C) Pin-drop silence
- D) Strict discipline

86. Motivation is a

- A) Natural state
- B) Physical state
- C) Psychological state
- D) None of the above

87. Audio visual aids help \_\_\_\_\_ students in the class.

- A) Slow learning
- B) Intelligent
- C) Playful
- D) Curious

88. 'Buniyadi Shiksha' plan is based on

- A) Dr. Radhakrishnan's Plan
- B) Mahatma Gandhi's Plan
- C) Maulana Abul Kalam Azad's Plan
- D) Rabindranath Tagore's Plan

85. एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है

- A) शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म
- B) छात्र-शिक्षक बातचीत
- C) पिन-ड्रॉप साइलेंस
- D) सख्त अनुशासन

86. प्रेरणा एक \_\_\_\_\_ है ।

- A) प्राकृतिक अवस्था
- B) भौतिक अवस्था
- C) मानसिक स्थिति
- D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

87. ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में \_\_\_\_\_ छात्रों की मदद करते हैं ।

- A) धीमी गति से सीखना
- B) बुद्धिमान
- C) प्रसन्न
- D) जिज्ञासु

88. 'बुनियादी शिक्षा' योजना \_\_\_\_\_ पर आधारित है ।

- A) डॉ. राधाकृष्णन के योजना
- B) महात्मा गांधी के योजना
- C) मौलाना अबुल कलाम आजाद के योजना
- D) रवीन्द्रनाथ टैगोर के योजना



89. Interaction analysis category system in education for increasing the teacher effectiveness was developed by
- Amidon and Simon
  - Flander
  - Rayon
  - Richard Over
90. NUEPA is concerned with
- Educational evaluation
  - Educational planning
  - Educational supervision
  - Educational unity
91. Moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher
- Frequently talks about values
  - Himself practices them
  - Tells stories of great persons
  - None of these
92. Verbal guidance is least effective in the learning of
- Aptitudes
  - Skills
  - Attitudes
  - Relationship
89. शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली द्वारा विकसित की गई थी।
- एमिडॉन और साइमन
  - फ्लैंडर
  - रेयान
  - रिचर्ड ओवर
90. एनयूईपीए का संबंध है
- शैक्षिक मूल्यांकन
  - शैक्षिक योजना
  - शैक्षिक पर्यवेक्षण
  - शैक्षिक एकता
91. छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक
- अक्सर मूल्यों की बात करता है
  - स्वयं उनका अभ्यास करता है
  - महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाता है
  - इनमें से कोई नहीं
92. \_\_\_\_\_ सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है।
- अभिरुचि
  - कौशल
  - मनोवृत्ति
  - रिश्ता

93. Which of the following is Doordarshan's Educational Television Channel in India ?

- A) Gurukul
- B) Gyan Bharati
- C) Gyan Darshan
- D) Vidya

94. For \_\_\_\_\_, 'Experimentation' is the standard procedure to know the truth.

- A) Public Administration
- B) Geography
- C) Archeology
- D) Science

95. Cause and effect relationships are studied by \_\_\_\_\_ studies.

- A) Clinical
- B) Comparative
- C) Developmental
- D) Experimental

96. What is the aim of Yashpal Committee Report (1993) ?

- A) I.C.T. in teacher education
- B) Learning through broadcasting
- C) Learning without burden
- D) None of the above

93. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है ?

- A) गुरुकुल
- B) ज्ञान भारती
- C) ज्ञान दर्शन
- D) विद्या

94. \_\_\_\_\_ के लिए 'प्रयोग' सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है ।

- A) लोक प्रशासन
- B) भूगोल
- C) पुरातत्त्व
- D) विज्ञान

95. कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन \_\_\_\_\_ अध्ययनों द्वारा किया जाता है ।

- A) क्लीनिकल
- B) तुलनात्मक
- C) विकास संबंधी
- D) प्रयोगात्मक

96. यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) का उद्देश्य क्या है ?

- A) शिक्षक शिक्षा में I.C.T.
- B) प्रसारण के माध्यम से सीखना
- C) बिना बोझ के सीखना
- D) उपर्युक्त में से कोई नहीं





97. The first practical intelligence test was invented by
- Alfred Binet
  - Charles Spearman
  - David Wechsler
  - Francis Galton
98. Insight learning was proposed by
- Edward C. Tolman
  - Kurt Lewin
  - Max Wertheimer
  - Wolfgang Kohler
99. 'I don't care' attitude of a student demonstrates his
- Aggression
  - Defence
  - Denial
  - Retrogression
100. "Self-actualizers share similarities". Who said this ?
- Abraham Maslow
  - Herzberg
  - Erik Erikson
  - Sigmund Freud
97. प्रथम व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार \_\_\_\_\_ द्वारा किया गया था ।
- अल्फ्रेड बिनेट
  - चार्ल्स स्पीयरमैन
  - डेविड वेस्लर
  - फ्रांसिस गैल्टन
98. इनसाइट लर्निंग \_\_\_\_\_ द्वारा प्रस्तावित किया गया था ।
- एडवर्ड सी. टोलमैन
  - कर्ट लेविन
  - मैक्स वर्थाइमर
  - वोल्फगैंग कोहलर
99. एक छात्र का 'मुझे परवाह नहीं है' रवैया उसका \_\_\_\_\_ प्रदर्शन करता है ।
- आक्रमण
  - रक्षा
  - इन्कार
  - पश्चगमन
100. "स्वयं वास्तविककर्ता समानताएँ साझा करते हैं" । यह किसने कहा ?
- अब्राहम मास्त्लो
  - हर्ज़बर्ग
  - एरिक एरिकसन
  - सिगमंड फ्रायड